Date: 07.05.2024





Letter No. FMFL/SEC/2024-25/SE-19

The Manager	The Manager
Listing Department	Listing Department
National Stock Exchange of India Limited	BSE Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block Bandra	Phiroze Jeejeebhoy Towers
Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	Dalal Street, Mumbai - 400 001
Scrip Code: FUSION	Scrip Code: 543652

Sub: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Submission of Newspaper Publication Cutting

Dear Sir/Ma'am,

In accordance with Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of Newspaper publication of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024 published in Financial Express and Jansatta on May 07, 2024.

The Board Meeting in which the aforesaid Audited Financial Results are approved, commenced at 03:00 PM (IST) and concluded at 7:45 PM (IST) on May 06, 2024.

Further, this is to inform that the Trading Window of the Company, which was closed w.e.f. April 01, 2024, shall open on May 09, 2024 i.e. after the end of 48 hours from the declaration of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024.

Kindly take the same on your record.

Thanking you, Sincerely,

For Fusion Micro Finance Limited

Deepak Madaan Company Secretary & Chief Compliance Officer Membership No. A24811 Place: Gurugram **FINANCIAL EXPRESS**

FY24 REVENUE MAY CROSS \$100 MN

InMobi's Glance to double revenue

Consumer tech firm also likely to trim losses

AYANTI BERA Bengaluru, May 6

GLANCE, A CONSUMER technology company owned by adtech unicorn InMobi, is set to more than double its revenue in FY24, to over \$100 million from \$39.81 million in the preceding year, sources close to the company said. Losses at Glance are also expected to grow at a single-digit percentage on the back of revenue ramp-ups and lower costs, compared to an 18.6% jump in losses in FY23, when it had recorded a net loss of \$130 million.

Sources said Glance likely saw a boost from its live entertainment platform Roposo, which currently has a gross merchandise value of over \$450 million.

Glance offers personalised content on the lock screens of smartphones and comes builtin with several android devices. It has an active user base of around 300 million and over the past year, it has launched in global markets such as Japan, the US and Latin America.

"They are expecting an uptick in revenues once the business from matured markets like Japan and the US

PRESS TRUST OF INDIA

ZEE MEDIA CORPORATION

on Monday said its CEO Abhay

Ojha has been terminated with

company said its board of direc-

tors at their meeting held on

Monday has approved and con-

firmed the cessation of employ-

ment of Ojha from the organisa-

tion and his consequent

cessation as the chief executive

officer of the company with

In a regulatory filing, the

New Delhi, May 6

effect from May 4.

effect from May 4.

EDGING UP

Losses at Glance expected to grow at singledigit percentage on the back of revenue rampups and lower costs



■ This is compared | to an 18.6% jump in losses in FY23, when Glance posted a net loss of \$130 mn

revenue boost may have come from its live entertainment platform Roposo, say sources

tech company has an active user base of around 300 million

starts trickling in as consumers in these markets have a higher propensity to consume value-added services," one of the sources said.

In a recent media interview, the company's chief marketing officer Bikash Chowdhury said that Glance has set a target of acquiring one billion users globally by the end of 2025.

Glance is backed by large investors such as Peter Thielbacked Mithril Capital, Google and Reliance Industries owned Jio Platforms.

In FY23, the company had reported a revenue growth of around 78% over the preceding fiscal year, according to Glance's filing with Accounting Corporate and Regulatory

Zee Media terminates CEO

Abhay Ojha was terminated

"On account of termination

of employment, Abhay Ojha

has ceased to be the Chief Exec-

a year after he was

promoted as CEO

Authority in Singapore. Glance files it corporate financials in Singapore as the company is registered there.

The company has been try-

ing to trim its expenses by reducing certain spends such as marketing. As per Glance's regulatory filing, the company's marketing expenses in FY23 dropped by 14% to \$31 million as compared to \$36 million in FY22. Marketing spends have likely declined in FY24 too.

When contacted by *FE*, the company declined to comment on its financial numbers and growth forecast. Glance's parent company InMobi is backed by SoftBank and has maintained profitability over the past several years.

utive Officer of the company,"

not elaborate the reasons for

of the company last year. He had

joined Zee Media in 2022 as

Chief Business Officer and P&L

head of linear channels, exclud-

Choudhary, who was chief

manager - legal, of Zee Media,

had resigned effective from

the close of business hours of

Earlier last month, Piyush

ing WION and Zee Business.

The company, however, did

Ojha was promoted as CEO

the filing added.

his termination.

Baba Kalyani's kin seek court freeze on family assets

GEETA NAIR Pune, May 6

INTHE OPENING proceedings of a civil case on Monday, Bharat Forge chairman Baba Kalyani found himself at the centre of legal scrutiny.

The lawsuit, filed by his nephew and niece, Sameer Jai Hiremath and Pallavi Swadi, seeks division of assets within the Kalyani Hindu Undivided Family (HUF). The duo, aiming for a 1/9th share in all assets, petitioned the Pune Civil Court to freeze the HUF's assets, valued at a staggering ₹65,000-₹70,000 crore.

Hiremath has also requested an updated list of assets and joint family properties in the Kalyani HUF, of which Baba Kalyani is the Karta. The legal team representing Kalyani has requested an extension until May 9 to file their reply and urged the court to withhold any decisions until they have had the opportunity to respond.

The siblings have petitioned the civil judge, Senior Division Pune, to halt Baba Kalyani and other senior members of the family from disposing of properties. They are requesting Baba Kalyani to disclose all assets accumulated over the years using the family's initial capital.

The assets include a significant portion of the listed companies within the Kalyani Group, along with shares in various listed and unlisted

GLOBAL INVESTMENT firm

KKR on Monday said it has

acquired medical device

firm Healthium Medtech

from an affiliate of funds

advised by Apax Partners

LLP in a deal estimated

definitive agreements,

under which funds man-

aged by KKR will acquire

Healthium from an affiliate

The company has inked

worth up to ₹7,000 crore.

KKR to acquire Healthium in

deal estimated up to ₹7k cr

CASE FILE

Sameer Jai Hiremath and Pallavi Swadi, Kalyani's nephew and niece, request court ***** to freeze all assets belonging to Kalyani HUF

■ Combined value of assets estimated at around ₹65,000-70,000 cr

■ Hiremath requests updated list of assets, joint family properties in the Kalyani **HUF**

Hiremath and Swadi had moved court in March, seeking partition in family assets

entities, as well as movable and immovable properties.

In their lawsuit, the siblings have requested a temporary injunction order to restrain the defendants from engaging in any actions involving the properties of the HUF.

The suit also argues before the court that "pending the hearing and final disposal of this suit, it is just and expedient to appoint a court receiver to safeguard the properties, which are admittedly large in number, of the HUF".

of funds advised by Apax, it

said in a statement. Accord-

ing to sources, the deal size

is pegged between ₹6,500

made by a special purpose

vehicle owned by KKR-man-

aged funds which will

acquire a controlling inter-

est in Healthium group,

including Healthium, KKR

— PTI

stated.

The acquisition will be

crore and ₹7,000 crore.

Indian airlines to ferry half of country's international traffic by FY28: Report

INDIA'S AIRLINES WILL ferry half of the country's international traffic by FY28 (2027–28) from 43% in FY24 (2023–24), Crisil Ratings said on Monday.

The improvement would be driven by air- the reoport said.

PNB GILTS

lines deploying additional aircraft and adding new routes in the international segment, as well as their inherent advantage of superior domestic connectivity compared with foreign carriers, — FE BUREAU



PNB GILTS LIMITED

Regd. Office: 5, Sansad Marg, New Delhi – 110001 Tel. 011-23325759, 23325779

Website: www.pnbgilts.com; Email: pnbgilts@pnbgilts.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable

provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (cumulatively "Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, PNB Gilts Limited ("the Company") is seeking approval from its Members via passing of Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated May 3, 2024 ("Postal Ballot Notice") by way of electronic voting ("e-voting/remote e-voting") only. In terms of relevant provisions of the Act and in accordance with the guidelines issued by the Ministry of

Corporate Affairs, inter-alia, for conducting Postal Ballot through e-voting vide General Circulars Nos. 14/2020,

17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021, 3/2022, 11/2022 and 09/2023 dated April 8, 2020, April

13, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020, June 23, 2021, December 8, 2021, May 5,

2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 respectively ("MCA Circulars"), the process of sending Postal Ballot Notice along with the instructions regarding remote e-voting through email to all those Members, whose email address is registered with the Company or with the Depositories/Depository Participants or Share Transfer Agent of the Company ("STA") and whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as on Friday, May 3, 2024 ("Cut-off Date"), has completed on May 6, 2024 In compliance with the requirements of the MCA Circulars, physical copy of Postal Ballot Notice along with

Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope will not be sent to the members for this Postal Ballot and members are required to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only. The Company has engaged National Securities Depository Limited ('NSDL') as e-voting agency for the purpose of providing remote e-voting services.

All the Members are hereby informed that:

(a) The e-voting period commences on **Tuesday, May 7, 2024 (9:00 AM IST)** and will end on **Wednesday, June** 5, 2024 (5:00 PM IST) for all the members, whether holding shares in physical form or in demat form. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date. Vote once casted cannot be changed subsequently.

(b)A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners

maintained by the depositories as on the cut-off i.e. Friday, May 3, 2024, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. A person who is not a member on the cut-off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice as for information purposes only. (c)The Board of the Directors of the Company has appointed Mr. Ankit Singhi (C.P 16274) failing him Mr. Nitesh

Latwal (CP No. 16276), Practicing Company Secretaries and Partners of M/s PI & Associates, New Delhi as the Scrutinizer for conducting the voting process through Postal Ballot E-Voting in accordance with the law and in a fair and transparent manner.

(d)The results of the Postal Ballot/e-voting will be declared with in a period of two (2) working days from the conclusion of remote e-voting, by the Chairman or any other person authorized by him in that behalf and displayed at the registered office of the Company. The results alongwith scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company and on the website of the NSDL (www.evoting.nsdl.com) and communicated to the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) where the Company's shares are listed.

Members are requested to register their email ID permanently by following the procedure as mentioned below:

(a) Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their email ID with the Company Registrar are requested to register/update their email ID with MCS Share Transfer Agent Limited by sending duly signed request Form ISR-1/letter at helpdeskreply@mcsregistrars.com with details of

folio number and attaching a self-attested copy of PAN Card. (b) Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email ID with the relevant Depository Participants. For further details, kindly refer to the notice of Postal Ballot. The notice is also available on Company's website

(www.pnbgilts.com), Stock Exchanges' website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and NSDL's website (www.evoting.nsdl.com). Any member seeking of electric copy of this notice may write to us at

monika.kochar@pnbgilts.com. Further, details including detailed instructions for voting are Provided in the notice of postal ballot available on the website of the Company. In case of any queries related to this Postal Ballot including remote e-voting facility, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the download section

of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, at the designated email address: pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in or at telephone no. +91 22 2499 4545

By Order of the Board of Directors For PNB Gilts Limited

Place: New Delhi Date: May 6, 2024

(Monika Kochar) **Company Secretary**

GUJARAT FLUOROCHEMICALS LIMITED

April 30, 2024.

Regd. Office: 16/3, 26 & 27, Ranjitnagar, Ghoghamba, Panchmahals, Gujarat-389 380 CIN: L24304GJ2018PLC105479, Website: www.gfl.co.in, email: contact@gfl.co.in

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 Rs. in Lakhs Corresponding ended ended Quarter ended Quarter ended ended 31 March 31 March 31 December 31 March 31 March **Particulars** 2024 2023 2024 2023 2023 (Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) 1,13,303 99,174 1,47,143 4,28,082 5,68,466 Revenue from operations Other income 1,829 1,318 1,859 5,953 9.044 Total Income (1+2) 1,15,132 1,00,492 1,49,002 4,34,035 5,77,510 23,755 20,621 52,927 95,476 2,04,715 Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (EBITDA) 14,102 11,027 44,928 59,509 1,78,474 Net Profit for the period before tax 10,097 8,009 1,32,305 Net Profit for the period after tax 33,189 43,495 Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/(Loss) and Other Comprehensive Income for the period) 9,723 8,816 33,161 43,759 1,33,805 1,099 Paid-up equity share capital (face value of Re 1 each) 1,099 1,099 1,099 1,099 5,92,535 5,82,812 5,50,973 5,92,535 5,50,973 Other Equity (excluding revaluation reserves) Net Worth 5,93,634 5,83,911 5,52,072 5,93,634 5,52,072 7.29* 9.19* 30.21* 39.60 120.44 Earnings per equity share - Basic and Diluted (in Rs.)(*) Not Annualised Debt Equity Ratio 0.35 0.27 0.27 3.27 2.98 4.03 0.93 2.48 Debt Service Coverage Ratio Interest Service Coverage Ratio 5.59 5.98 4.79 11.11 12.84

KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS

Rs. in I								
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31 March 2024 (Audited)	Preceding Quarter ended 31 December 2023 (Unaudited)	Corresponding Quarter ended 31 March 2023 (Audited)	Year ended 31 March 2024 (Audited)	Year ended 31 March 2023 (Audited)		
1	Total Income from operations	1,06,173	92,076	1,48,908	4,08,807	5,71,883		
2	Net Profit for the period before tax	11,708	7,502	48,112	55,847	1,81,881		
3	Net Profit for the period after tax	8,601	5,574	35,671	41,875	1,35,560		

NOTES:

Place: Noida

- The above is an extract of the detailed format of Audited Consolidated Financial Results of the Company for the guarter and year ended 31st March 2024. filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulations, 2015. The full format of Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March 2024 is available at the Company's website www.gfl.co.in and the websites of the Stock Exchanges, at www.bseindia.com and www.nseindia.com
- 2. The above results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on 6th May 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out the audit and have issued their unmodified opinion on the financial results.
- 3. The Board of Directors at its meeting held on 6th May 2024 has proposed a final dividend of Rs. 3 per equity share (i.e., 300% on equity share of face value of Re. 1/-).

On behalf of the Board of Directors Vivek Jain (Managing Director) DIN: 00029968



Fusion

Fusion Micro Finance Limited

CIN: L65100DL1994PLC061287

Registered Office: H-1, C Block, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi-110028 Corporate office: Plot no. 86, Institutional Sector 32, Gurugram, Haryana-122001 Contact Person: Deepak Madaan, Company Secretary and Chief Compliance Officer; Tel.: +91-124-6910500 E-mail: companysecretary@fusionmicrofinance.com; Website: www.fusionmicrofinance.com

Extract of Financial results for the quarter and year ended March 31, 2024

(₹ in crore unless otherwise stated)

		(Quarter ende	Year ended			
S. No.	Particulars	March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023	
		Unaudited*	Unaudited	Unaudited*	Audited	Audited	
ា	Total Income from Operations	645.99	593,03	500.89	2,316.73	1,741.92	
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	171.71	166.50	151.92	663.26	511.98	
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	171.71	166.50	151.92	663.26	511.98	
4	4 Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)		132.69 126.45 114.52		505.29	387.15	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	132.95	126.54	113.89	506.52	387,46	
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	100.62	100.53	100,35	100.62	100.35	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	1,101.27	964.99	584,03	1,101.27	584.03	
8	Securities Premium Account	1,646.26	1,643,43	1,637.54	1,646.26	1,637.54	
9	Net worth	2,848.15	2,708.95	2,321.92	2,848.15	2,321.92	
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	8,615.90	8,023.87	6,778.40	8,615.90	6,778.40	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	9	98	34	9	
12	Debt Equity Ratio	3.03	2.96	2,92	3.03	2,92	
13	Earnings Per Share (face value of ₹ 10 /- each) (not annualised for quarter ended)						
	1. Basic:	13.20	12.58	12.81	50,30	43.29	
	2. Diluted:	13.15	12.51	12.76	50.11	43,13	
14	Total debts to total assets	0.73	0.73	0.72	0.73	0.72	
15	Net profit margin (%)	19.65%	20.62%	21.99%	20.95%	21.51%	
16	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA	
17	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA	
18	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	
19	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	

- . The above results have been reviewed by Audit committee and approved by Board of Directors at their respective meetings held on May 06, 2024 in accordance with requirement of the Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations, 2015"). The audit of financial results for the year ended March 31, 2024 and limited review of financial results for the guarter ended March 31, 2024, have been conducted by the Statutory Auditors of the Company.
- 2. The above is an extract of the detailed format of guarterly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015. The full format of the quarterly and yearly financial results are available on the stock exchange website's i.e., National Stock Exchange (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) and can be accessed on the website of the Company (www.fusionmicrofinance.com)
- 3. For the items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges i.e National Stock Exchange of India Limited - www.nseindia.com, BSE Limited - www.bseindia.com and can be accessed on the Company's website i.e. www.fusionmicrofinance.com.
- Previous periods/year figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to conform with current period's classification. *The figures for the guarter ending as on March 31, 2024 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year up to March 31, 2024 and the unaudited published year-to-date figures up to December 31, 2023, being the date at the end of the third quarter of the financial year which were subjected to limited review. Similarly, the figures for the quarter ending as on March 31, 2023 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year up to March 31, 2023 and the unaudited published year-to-date figures up to December 31, 2022, being the date at the end of the third quarter of the financial year which were subjected to limited review.

For and on behalf of the Board of Directors of **Fusion Micro Finance Limited**

> Devesh Sachdev MD & CEO

Date: May 06, 2024 financialexp.epapr.in

Place: Gurugram





DIN: 02547111

New Delhi

परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा

विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

की वसूली हेतु किया जायेगा।

छह लाख छियानबे हजार नौ सौ मात्र)

उत्तरः 18 फीट रोड दक्षिणः अन्य संपत्ति

लाख अस्सी हजार एक सौ चौसठ मात्र)

संदर्भ ग्रहण करें।

प्राप्त कर लें।

दिनांक : 06-05-2024

स्थान : नई दिल्ली

राजेंद्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली-110 060

भुखंड सं. 8-बी, प्रथम तल,

ई-ਸੇਲ : delhiarm@ktkbank.com

वेबसाइट : www.karnatakabank.com

सीआईएन: ल85110केए1924पीएलसी001128

158844790 ofKajaria Ceramics Ltd. registered in the name of Ashok Bhuwalkahas/have been lost has/have applied to the company to issue duplicate certificate(s). Any person who has/have any claim in respect of the said share certificate(s) should lodge such claim with the company at its registered officeSF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli Gurgaon Road, Village Sikanderpur, Ghosi, Gurugram, Haryana, 122001 within 15 days of the publication of this notice, after which no claim will be entertained and the company will proceed to issue

Ashok Bhuwalka Place:Delhi KJ 15 Kavi Nagar Ghaziabad **UP 201002** Date:04/05/2024

duplicate share certificate(s).

प्रपत्र संख्या आईएनसी - २६ (कम्पनी (निगमन) नियमावली, २०१४ के नियम के नियम ३० के अनुपालन में) एक राज्य से दसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के

समक्ष कम्पनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३ की उप-धारा (४) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, २०१४ के नियम ३० के उप-नियम (५) के खंड (ए) के मामले में

फेरोविया ट्रांसरेल सोल्यशन्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय १४ वीं मंजिल, अंतरीक्ष भवन २२,कस्तुरवा गांधी मार्ग, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली -११०००१

.... आवेदक एतदद्वारा आम जनता को सचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से महाराष्ट्र राज्य पुने में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए ब्धवार, १० एप्रिल २०२४ को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कम्पनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३ के अंतर्गत यह कम्पनी ने माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पास

आवेदन करने का प्रस्ताव करती है । कम्पनी के पंजीकत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-२१ पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेसक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके वर्णित पंजीकत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकती तथा आपत्ति के कारणे का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते बी - २ विंग, २ रा तल, पीटी दिनदवाल अंत्योदव भवन, २ रा तल सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली ११०००३ पर जमा करें या जमा कराएं या

तिथि : ०७ मई २०२४

नई दिल्ली -११०००१ , भारत

पंजीकत डाक से भेजे।

स्थान : नई दिल्ली आवेदक के लिए तथा उनकी और से फेरोविया टांसरेल सोल्यशन्स प्राडवेट लिमिटेड हस्ताक्षर रोहित गोगिया

निदेशक ভীসার্হাদন : ৬৩४६७६५४ कम्पनी का वर्तमान पंजीकृत कार्यालय का पता : १४ वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन २२, कस्तरका गांधी मार्ग, सेंटल दिल्ली,

%। पीएनबी गिल्ट्स GILTS लिमिटेड

पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1996PLC077120

पंजीकृत कार्यालयः 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001 फोनः 011-23325759 23325779 वेबसाइट: www.pnbgilts.com; ईमेल: pnbgilts@pnbgilts.com

हस्ता./- कृते कर्नाटका बैंक लिमिटेड

मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

पोस्टल बैलट की सूचना

सदस्यों को एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 के प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार (संचयी रूप से 'अधिनियम'), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ('लिस्टिंग विनियम'), भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक – 2 (एसएस – 2) एवं अन्य

प्रयोज्य कानूनों तथा विनियमों, यदि कोई हो, सहित यथाप्रचलित अन्य विधिक संशोधनों या पुन अधिनियमनों के प्रावधानों के अनुसार पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड ('कंपनी') पोस्टल बैलट सूचना दिनांक 03 मई, 2024 ('पोस्टल बैलट नोटिस') में निर्धारित प्रस्ताव केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ('रिमोट ई वोटिंग') द्वारा अपने सदस्यों से पारित कराना चाहती है । अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट कार्य मन्त्रालय द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के साथ—साथ सामान्य परिपत्र सं. 14 / 2020, 17 / 2020, 22 / 2020, 33 / 2020, 39 / 2020, 10 / 2021, 20 / 2021, 03 / 2022, 11 / 2022 तथा 09 / 2023 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 15 जून, 2020, 28 सितम्बर, 2020, 31 दिसम्बर, 2020, 23 जून, 2021, 8 दिसम्बर, 2021, 5 मई, 2022, 28 दिसम्बर, 2022 एवं 25 सितम्बर, 2023 ('एमसीए परिपत्र') के अनुसार पोस्टल बैलट संचालन करने हेतू रिमोट ई वोटिंग से सम्बन्धित

03 मई, 2024 ('कट—ऑफ डेट') को सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं, 06 मई, 2024 को पूरी हो एमसीए परिपत्रों के अनपालन में पोस्टल बैलट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस लिफाफे के साथ पोस्टल बैलेट नोटिस की भौतिक प्रति सदस्यों को इस पोस्टल बैलेट के लिए नहीं भेजा जाएगा और सदस्यों को केवल रिमोट ई वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी सहमित या

निर्देश सहित पोस्टल बैलट नोटिस भेजने की प्रक्रिया ई-मेल द्वारा उन सभी सदस्यों के पास जिनके ई-मेल पते कम्पनी या

डिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी भागीदार या कम्पनी कें शेयर अन्तरण एजेंट ('एसटीए') के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम शुक्रवार,

असहमति का संचार करना अपेक्षित है। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') को नियुक्त किया है।

सभी सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है किः

(क) सभी सदस्यों, चाहे वे भौतिक रूप से शेयर रखते हों या डीमैट फार्म में, के लिए ई—वोटिंग की अवधि **मंगलवार, 07 मई, 2024 (9:00** बजे सुबह आईएसटी) से शुरू होगी और बुधवार, 05 जून, 2024 (शाम 5:00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी। उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त समय और तिथि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार डाले गए वोट को बाद में बदला नहीं जा सकता है।

(ख)एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में कट—ऑफ डेट यानी शुक्रवार, 03 मई, 2024 को दर्ज है, वह रिमोट ई— मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। एक व्यक्ति जो कट—ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे तदनुसार पोस्टल बैलेट नोटिस को केवल सूचना के प्रयोजन के लिए मानना चाहिए।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री अंकित सिंघी (सीपी नंबर 16274) अथवा उनकी अनुपस्थिति में श्री नितेश लटवाल (सीपी नंबर 16276), प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव एवं पार्टनर, मैसर्स पीआई एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली को कानून के अनुसार, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट ई-वोटिंग के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है।

(घ) पोस्टल बैलेट / ई—वोटिंग के परिणाम अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रिमोट ई—वोटिंग के समापन से दो (2) कार्य दिवसों की अवधि के अन्दर घोषित किए जाएंगे और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किया गया। जांचकर्ता की रिपोर्ट के

(क)भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने कंपनी रजिस्ट्रार के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत / अपडेट नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे फोलियो नंबर के विवरण के साथ विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध फॉर्म आइएसआर–1 और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न कर helpdeskreply@mcsregistrars.com पर ईमेल / पत्र भेजकर एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट

(ख) डिमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी को

अधिक जानकारी के लिए, कृपया पोस्टल बैलेट नोटिस देखें। यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट (www.pnbgilts.com), स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है। इस नोटिस की इलेक्ट्रिक कॉपी हेतु कोई भी सदस्य हमें monika.kochar@pnbgilts.com पर ईमेल लिखे। इसके

रिमोट ई—वोटिंग स्विधा व इस पोस्टल बैलेट से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई—वोटिंग यूजर मैनूअल का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800–222–990 पर कॉल करें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेंड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई — 400013 से निर्दिष्ट ईमेल पते पर:

> बोर्ड के आदेशानुसार पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड हस्ता./-(मोनिका कोचर) कंपनी सचिव

x Karnataka Bank Ltd.

अचल संपत्ति की विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों व

प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपित्तियों वे

एतदद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है वि

प्रतिभृत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक अधिग्रहण

कर्नाटका बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा 05-09-2023 को कर लिया गया है, उसक

विक्रय 29-05-2024 को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर किय

जाएगा। यह विक्रय (१) मेसर्स एसएसटी इंजीनियर्स एंड ट्रेडर्स, जिसका प्रतिनिधित्व इसके मालिक श्री त्रिवेणी

प्रसाद पांडे करते हैं, प्लॉट नंबर ई-१४, संजय कॉलोनी, सेक्टर-२३, फरीदाबाद, हरियाणा-१२१०००, यह भी

पताः रु६३६/३, पुरानी सब्जी मंडी के पास, सरन रोड, पर्वतीय कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद,

हरियाणा–१२१००५, और (२) श्रीमती सुमन पांडे, पत्नी त्रिवेणी प्रसाद पांडे, रु६३६/३, पुरानी सब्जी मंडी वे

पास, सरन रोड, पर्वतीय कॉलोनी, एनँआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा–१२१ ००५, उधारकर्ताओं / गारंटरों ,

सह-दायित्वधारकों के रूप में, की ओर से कर्नाटका बैंक लिमिटेड, फरीदाबाद शाखा, हरियाणा, एससीओ

नं. 146, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 21सी, फरीदाबाद—121001, प्रतिभृत ऋणदाता को देय भृग्तेय (1)

रु. 1,06,70,672.57 (रुपये एक करोड़ छह लाख सत्तर हजार छह सौ बहत्तर एवं सत्तावन पैसे मात्र) यानी

पीएसओडी खाता संख्या 2257000600015001 के तहत रु. 71,28,788.85 और पीएसटीएल खाता संख्या

2257001800017101 के तहत रु. 35,41,883.72, साथ ही 01.03.2022 और 28.03.2022 से भावी ब्याज, प्लस

लागत क्रमशः, की वसूली हेतु किया जायेगा तथा; (1) मेसर्स शिवम एंटरप्राइजेज, जिसका प्रतिनिधित्व इसकी

प्रोप्राइटर श्रीमती सुमन पांडे करती हैं, रु639/3, पुरानी सब्जी मंडी के पास, सारन रोड, पर्वतीय कॉलोनी,

एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा—121005 और (2) श्री त्रिवेणी प्रसाद पांडे पुत्र श्री फूल चंद पांडे, रु639/3,

पुरानी सब्जी मंडी के पास, सारन रोड, पर्वतीय कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा—121005, उधारकर्ताओं

🗸 गारंटरों 🖊 सह—दायित्वधारकों के रूप में, की ओर से कर्नाटक बैंक लिमिटेड, फरीदाबाद शाखा, हरियाणा,

एससीओ नं. 146, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 21सी, फरीदाबाद-121001, प्रतिभूत ऋणदाता को देय-भूग्तेय,

रु. 1,10,40,212.87 (रुपये एक करोड़ दस लाख चालीस हजार दो सौ बारह और पैसे सत्तासी मात्र) यानि

पीडीपीएन खाता संख्या 2257001400011901 के अंतर्गत रु. 1,81,328.98, पीएसटीएलए/सी संख्या

2257001800017001 के अंतर्गत रु. 41,62,555.06 और पीएसटीएलए/सी संख्या 2257001800019301 के

अंतर्गत रु. ६६,९६,३२८.८३, क्रमशः २९.०३.२०२२, २८.०३.२०२२ और ०१.०३.२०२२ से भावी ब्याज सहित, प्लस लागत

अचल संपत्ति का विवरण :

1. औद्योगिक संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें खसरा नं. 8/23, 18, 19/1/1, 19/1/2, 19/1/16

19/1/17, 19/1/18, 19/1/20, 社 19/1/29, 19/2/1, 19/2/6, 19/2/7, 19/2/8

19/2/10, 19/2/13 से 19/2/19, 22/1 से 22/11, 22/17, 22/19 से 22/39, 22/40/1

22/41, 22742, 22/43 खसरा नं. 18//2/2/2, 2/2/4 से 2/2/17 खसरा नं. 8//17/2/12,

19/2/11, 19/2/2, 19/2/3/1, 19/2/3/2, 19/2/5, 22/40/2 खसरा नं. 18//2/2/1

खसरा नं. 8//19/1/4, 19/1/3, 19/1/5, 19/1/6, 19/1/8, 19/1/9, 19/1/10

19/1/7, 22/18, 19/1/11 社 19/1/5, 22/12, 22/13, 22/16, 22/14, 22/15, 19/2/4/1

19/2/4/2, 19/1/19, 19/1/20 खसरा नंबर 18//2/2/16, 19/2/9 राजस्व संपदा मौजा गौंची,

तहसील बल्लभगढ़-फरीदाबाद, वर्तमान में संपत्ति संख्या डब्थ-6613, पश्चिमी भाग, पुरानी सब्जी मंडी के पास, सारन स्कूल रोड, पर्वतीय कॉलोनी, छप्ज-फरीदाबाद, राजस्व संपदा मौजा गौंची, तहसील बल्लभगढ़, जिला

फरीदाबाद, 220 वर्ग गज, श्री त्रिवेणी प्रसाद पांडे से संबंधित है। संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा 05.09.2023 को

लिया गया था। सीमाएं: पूर्वः श्री चिरंजी लाल की निजी संपत्ति पश्चिमः अन्य संपत्ति उत्तरः 18 फीट रोड

दक्षिणः अन्य संपत्ति आरक्षित मूल्य ∕ अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकतीः ₹.69,69,000.00

(रुपये उनसठ लाख उनसठ हजार मात्र) जमा / निविदा की जाने वाली बयाना राशिः रु.६,96,900.00 (रुपये

2. औद्योगिक संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें खसरा संख्या 8/23, 18, 19/1/1, 19/1/2, 19/1/16

19/1/17, 19/1/18, 19/1/20, से 19/1/29, 19/2/1, 19/2/6, 19/2/7, 19/2/8 शामिल

हैं। 19/2/10, 19/2/13 से 19/2/19, 22/1 से 22/11, 22/17, 22/19 से 22/39, 22/40/1

22/41, 22742, 22/43 खसरा नं. 18//2/2/2, 2/2/4 से 2/2/17 खसरा नं. 8//17/2/12

19/2/11, 19/2/2, 19/2/3/1, 19/2/3/2,19/2/5, 22/40/2 खसरा नं.18//2/2/1

खसरा नं. 81119/1/4, 19/1/3, 19/1/5, 19/1/6, 19/1/8, 19/1/9, 19/1/10, 19/1/7

22/18, 19/1/11 से 19/1/5, 22/12, 22/13, 22/16, 22/14, 22/15, 19/2/4/1

19/2/4/2, 19/1/19, 19/1/20 खसरा नं. 18//2/2/16, 19/2/9 मीजा गींछी की राजस्व

संपदा में, तहसील बल्लभगढ – फरीदाबाद, वर्तमान में संपत्ति संख्या डब्थ–6613, पर्वी भाग, परानी सब्जी मंडी

के पास, सारन स्कूल रोड, पर्वत्य कॉलोनी, एनआईटी– फरीदाबाद मौजा गौंछी की राजस्व संपदा, तहसील,

बल्लभगढ, फरीदाबाद जिला, 220 वर्ग गज माप की, श्रीमती सुमन पांडे से संबंधित है। संपत्ति का भौतिक

कब्ज़ा 05.09.2023 को लिया गया था। सीमाएं: पूर्वः अन्य संपत्ति पश्चिमः श्री चिरंजी लाल की निजी संपत्ति

आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति बेची नहीं जा सकतीः **रु 68,31,640.00 (रुपये अड़सठ लाख**

इकतीस हजार छह सौ चालीस मात्र) जमा / निविदा की जाने वाली बयाना **राशि : रु.६,८३,164.00 (रुपये छह**

3. आवासीय संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें मकान संख्या 639/3, खरसा संख्या 8/23 है, जो प्लॉट

संख्या 20, 21 और 22 पर स्थित है, जिसका कूल क्षेत्रफल 60 वर्ग गज है, (प्लॉट संख्या 20 और 21, प्रत्येक

का क्षेत्रफल 20 वर्ग गज है जो श्री त्रिवेणी प्रसाद पांडे के नाम पर है और प्लॉट संख्या 22, जिसका क्षेत्रफल

20 वर्ग गज है जो श्रीमती सुमन पांडे के नाम पर है), पुरानी सब्जी मंडी के पास, पर्वतीय, एनआईटी, फरीदाबाद

हरियाणा। संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा 14.09.2023 को लिया गया था। **सीमाएं:** पूर्वः मकान नंबर 638 / 1 पश्चिमः

आरक्षित मूल्य / अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकतीः रु. 29,00,000.00 (केवल उनतीस लाख

(उधारकर्ता / बंधककर्ता का ध्यान, प्रतिभृत परिसंपत्ति के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की

(यह सूचना उधारकर्ता / गारंटरों के लिए प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम (9) के उप-नियम

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया कर्नाटका बैंक की वेबसाइट अर्थात्

www.karnatakabank.com के "29.05.2024 को मेगा ई-नीलामी" शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध लिंक का

ई-नीलामी का संचालन पोर्टल https://bankauctions.in/ के माध्यम से 29-05-2024 को पूर्वा. 11.30

बजे से लेकर के अपराहन 12.30 बजे तक किया जाएगा. जो 05 मिनटों के असीमित विस्तार के साथ होगा।

इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे https://bankauctions.in/ पर अपना नाम पंजीकृत कर लें और

निःशुल्क रूप से प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर लें तथा मैसर्स 4क्लोजर, 605ए, 6ठवां तल,

मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद-500038, संपर्क फोन नं. 040.23836405, मोबाइल नं. 8142000809,

ईमेल: info@bankauctions.in से **ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण** (अनंतिम रूप में 28-05-2024 को)

रुपये) जमा / निविदा की जाने वाली बयाना राशिः रु. 2.90.000.00 (केवल दो लाख नब्बे हजार रुपये)

श्री एस.पी. थलीवाल का मकान नंबर 340 उत्तरः अन्य संपत्ति दक्षिणः सड़क।

धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकष्ट किया जाता है)।

(1) के अंतर्गत निर्गत सूचना के रूप में भी प्रेषित / प्राप्त हुयी समझी जाय)।

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड कॉपेरेट कार्यांतवः नं. 167-169, ब्रितीय तत, अना सर्ताई, सैवापेट, बेन्वई-600015 Hh HINDUJA HOUSING FINANCE द्वितीय तल, 212B & 212C, प्लॉट नं. TC/G-2/2 और TC/G-5/5 साईबर हाईट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनक-226010 आरआरएम - पंकल सिंह चौकरी - 7081828333, आरएलएम - करुम कुमार सिंह - 9506011777, सीआरएम - दीपक कुमार - 9838600868, सीएलएम - राहल सिंह - 9997535282

शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के लामने अंकित के अनुसार लिया है।

पर मविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदार / गारन्टर के नाम

एवं पता

आवेदन नं. UP/AYD/AYDH/A000000026

श्री राजकुमार पांडे पुत्र शिव कुमार पांडे,

रनएच-28, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहादत गंज

हे पीछे, अयोध्या-224001, सेमीअर्वन, फैजाबाद,

उत्तर प्रदेश, भारत - 224001, श्रीमती ममता पांडे

पत्नी- राजकमार पांडे, निवासी: एनएच-28,

गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के पीछे सहादत गंज

अयोध्या-224001, सेमीअर्बन, फैजाबाद, उत्तर

प्रदेश, भारत – 224001 और: पारा राम पांडे का

पुरवा तहसील बीकापुर जिलाः अयोध्या यू.पी.

दिनांक : 06-05-2024, स्थान : अयोध्या

सांकेतिक कब्जा सचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने बित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भृति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **हिंदुजा हाएसिंग**

फार्डनेंस लिमिटेड. का प्राधिकत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12)

के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा मया है) को

निम्नांकित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित हैं उक्त सचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर

. कर्जदार चक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं. इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि

अधोहस्ताक्षरी ने इसमें मीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा. उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा

संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर सर्विदात्मक दर

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर

बकाया राशि

₹ 21,64,057/-

13-09-2023 तक

+ ब्याज इत्यादि

अचल सम्पतियों का विवरण

संपत्ति / प्लॉट, जिसका भृतल क्षेत्रफल

176.57 वर्ग मी. खसरा नं 8 का हिस्सा

जो ग्राम-बनवीर पुर, परगना-मगलसी

तहसील शोहावल, जिला-अयोध्या उ.प्र.

उप-रजिस्टार शोहावल, जिला-अयोध्या

उ.प्र. में रिधत, चीहदी: उत्तर में – रेन् सिंह

का प्लॉट, दक्षिण में - कुँवर आनंद सिंह

का प्लॉट, पुरब में - कुँवर आनंद सिंह का

प्लॉट, पश्चिम में — रास्ता 20 फीट

प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

मांग सूचना की तारीख

कब्जा सूचना की तिथि

27-09-2023

30.04.2024

सांकेतिक

Jaipur, Rajasthan, India, 302001. www.aubank.in LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

Registered Office: 19-A Dhuleshwar Garden,

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding. amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on 13 May 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time) at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

AMRITSAR EMINENT MALL - 23660001229372 23660001329203 | BHATINDA 23660000717261 23660001259114 23660001266821 23660001562893 23660002190785 23660002254236 | JALANDHAR - 23660001863377

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form. which is made available before the commencement of auction.

NOTICE OF LOSS OF SHARES OF

DCM SHRIRAM LTD.

Regd. Off.: 2nd Floor (West Wing), World Mark 1, Aerocity, New Delhi Delhi -110037

Notice is hereby given that the following share

certificates have been reported as lost/misplaced

and the Company intends to issue duplicate

Any person who has a valid claim on the said

shares should lodge such calim with the Company

Name of the holder - Rameshwar Prasad Gupta,

Folio No.- 00033071, No. of shares - 1020,

Name(s) of the Holder(s)

Certificate No. - 13402, Distinctive No.(s)

Date: 07/05/2024 Rameshwar Prasad Gupta

सेव फाडनेशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

फंडीकुत कार्यतस्य यूनिट नंबर १७३, १वी मीजिल, वेगास मील. प्लीट नंबर ६, सेक्टर-14, द्वारका, दक्षिण परिचम दिल्ली-110078.

तिश्रहरूनः U67110DL1995PTC379585

हे-मेल cs@saveind.in

चित किया जाता है कि मैसर्स सेव फाइनेशियल सर्विसे

शाखा स्थानांतरण हेतु विज्ञापन

प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी" के रूप में सदर्सि

कंपनी अधिनियम, 1966 के प्राकशनों के तहत निगरि

और नेशनल हाउसिंग बैक ("एनएचबी") के साथ हाउसिं

फाइनेंस कंपनी के राप में पंजीकत, पंजीकरण प्रमाण र

बीओआर-00098 दिनांक 04 जुलाई, 2023 के माध्यम सं) सेव फाइनेशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेब, एष-221

इन्फिनिटी टॉवर, ऑफिस नंबर बी-02, सेक्टर-63

नोएडा 201309 (यूपी) में रिधत अपनी शाखा को सूचना व

प्रकाशन के 90 दिनों के भीतर स्थानातरित करना चाहता

और इस शारक से सभी संचार नई शास्त्रा **सेव फाइन्सेंशिय**र सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एएसी-04, शिप्रा कृष्णा अजूर,

कौशांबी, गाजिवाबाद, चत्तर प्रदेश-201010 से हसी तर

और, इस शाखा में रखे गए सभी खाते और अन्य प्रासंविक

एएसी–04, शिप्रा कृष्णा अजूर, कौशांबी, गाजियाबाद,

वत्तर प्रदेश-201010 रिथत हमारी नई शाखा

नई शाखा का विवरण

शाखा का नाम- कौशांबी एसएफएसपीएल शाखा

पता- सेव फाइनेशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,

एएसी-04, शिप्रा कृष्णा अजूर, कौशांबी, गाजियाबाद,

उत्तर प्रदेश-201010

संपर्क व्यक्ति:-राजन क्नार 9999066663

कंपनी के किसी भी ग्राहक को कंपनी की शास्त्रा

म्स्तावित स्थानांतरण के कारण कोई समस्या हो तो व

कंपनी क ईमेल cs@saveind.in पर ईमेल के माध्यम लेख सकता है और संपर्क करें-यनिट नंबर 782 7

मंजिल वेगास मॉल प्लॉट नंबर ६ सेक्टर-14 द्वारक

संव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लि

सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यलय यूनिट नंबर 782, उर्वी मंत्रिल वेगास चील

फॉट नंबर ६, सेक्टर-14, द्वारका, दक्षिण परिचम दिवली-110075,

सीआईएन U65100DL2011PLC214079

इं-मेल cs@saveind.in

किया जाता है कि मैसर्स सेव डाजिसंग फाइनें

शाखा स्थानांतरण हेतु विज्ञापन

लेमिटेड (जिसे पहले न्य डैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस

डेवलपर्नेट लिमिटेंड के नाम से जाना जाता था। (इस

ua "कंपनी" के रूप में संदर्भित) (कंपनी अधिनियम, 195

के प्रावधानों के तहत निगमित और नेशनल हाउसिंग कें

'एनएवबी''। के साथ डाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप जीकृत, पंजीकरण प्रभाण पत्र हीओआर-00098 विन

04 जुलाई, 2023 के माध्यम से) सेव डाउसिंग फाडनेर

लिमिटेड, एच-221 इन्फिनिटी टॉवर, ऑफिस नंब

बी-02, सेक्टर-63, नोएडा 201309 (यूपी) में रिधा अपनी शाखा को सुचना के प्रकाशन के 90 दिनों के शीत

स्थानांतरित करना बाहता है और इस शाखा से स

तंबार नई शाखा सेव हाउसिंग काइनेंस लिमिटे

एएसी–04, शिप्रा कृष्णा अजूर, कौशांबी, माजियाबाद

और, इस शाखा में रखें गए समी खाते और अन्य प्रासंगि

विवरण सेव हाजसिंग फाइनेंस लिमिटेड एएसी–04, शिप्र

कृष्णा अजुर, कौशांबी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010

र्रेथत हमारी नई शाखा में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे

नई शाखा का विवरण

शाखा का नाम- कौशाबी एसएचएफएल शाखा पता-सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एएसी-04,

शिप्रा कृष्णा अजूर, कौशांबी, गाजियाबाद,

उत्तर प्रदेश-201010

संपर्क व्यक्ति :-रंजीत कुमार सिंह 9315540936

कंपनी के किसी भी ब्राहक को कंपनी की शाखा

स्तावित स्थानांतरण के कारण कोई समस्या हो तो ।

कंपनी क ईमेल cs@saveind.in पर ईमेल के माध्या

से लिख सकता है, और संपर्क करें–पुनिट नंबर 782, 76

र्गजिल, येगास मॉल, प्लॉट नंबर ६, सेक्टर-14, द्वारव

सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के वि

वत्तर प्रदेश-201010 से इसी तरह जारी रहेगे ।

इस्ताधर /

निदेशक

अजीत कुमार सिंह

ध्यानांतरित कर दिए जाएंगे

दक्षिण पश्चिम दिल्ली-110075

स्थानः कौशांबी

दिनांक: 07 मई 2024

सेव फाइनेशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिट

1548971-1549480, 88400631-88401140.

Place : New Delhi

at its Registered Office within 15 days hereof.

certificates in lieu thereof, in due course.

Manager AU Small Finance Bank Limited

Fusion ★ Microfinance

Fusion Micro Finance Limited

CIN: L65100DL1994PLC061287

भगतान करने को कहा गया था।

आकर्षित किया जाता है।

Registered Office: H-1, C Block, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi-110028 Corporate office: Plot no. 86, Institutional Sector 32, Gurugram, Haryana-122001 Contact Person: Deepak Madaan, Company Secretary and Chief Compliance Officer, Tel.: +91-124-6910500

E-mail: companysecretary@fusionmicrofinance.com; Website: www.fusionmicrofinance.com

Extract of Financial results for the quarter and year ended March 31, 2024

		(Quarter ende	Year ended			
S. No.	Particulars	March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023	
		Unaudited*	Unaudited	Unaudited*	Audited	Audited	
1	Total Income from Operations	645.99	593.03	500.89	2,316.73	1,741.92	
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	171.71	166.50	151.92	663.26	511.98	
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	171.71	166.50	151,92	663.26	511.98	
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	132,69	126.45	114.52	505.29	387.15	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	132.95	126.54	113.89	506.52	387,46	
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	100.62	100.53	100.35	100.62	100.35	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	1,101.27	964,99	584.03	1,101.27	584.03	
8	Securities Premium Account	1,646.26	1,643.43	1,637.54	1,646.26	1,637.54	
9	Net worth	2,848.15	2,708.95	2,321.92	2,848.15	2,321.92	
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	8,615.90	8,023.87	6,778.40	8,615.90	6,778.40	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	N/E	(4)	14			
12	Debt Equity Ratio	3.03	2.96	2.92	3.03	2.92	
13	Earnings Per Share (face value of ₹ 10 /- each) (not annualised for quarter ended)						
	1. Basic:	13.20	12.58	12.81	50.30	43.29	
	2. Diluted:	13.15	12.51	12.76	50.11	43,13	
14	Total debts to total assets	0.73	0.73	0.72	0.73	0.72	
15	Net profit margin (%)	19.65%	20.62%	21.99%	20.95%	21.51%	
16	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA.	
17	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA	
18	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	
19	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA-	NA	NA	NA	

- The above results have been reviewed by Audit committee and approved by Board of Directors at their respective meetings held on May 06, 2024 in accordance with requirement of the Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations, 2015"). The audit of financial results for the year ended March 31, 2024 and limited review of financial results for the guarter ended March 31, 2024, have been conducted by the Statutory Auditors of the Company.
- 2. The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015. The full format of the quarterly and yearly financial results are available on the stock exchange website's i.e., National Stock Exchange (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) and can be accessed on the website of the Company (www.fusionmicrofinance.com)
- 3. For the items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges i.e National Stock Exchange of India Limited - www.nseindia.com, BSE Limited - www.bseindia.com and can be accessed on the Company's website i.e. www.fusionmicrofinance.com.
- Previous periods/year figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to conform with current period's classification. *The figures for the quarter ending as on March 31, 2024 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year up to March 31, 2024 and the unaudited published year-to-date figures up to December 31, 2023, being the date at the end of the third quarter of the financial year which were subjected to limited review. Similarly, the figures for the quarter ending as on March 31, 2023 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year up to March 31, 2023 and the unaudited published year-to-date figures up to December 31, 2022, being the date at the end of the third quarter of the financial year which were subjected to limited review.

For and on behalf of the Board of Directors of **Fusion Micro Finance Limited**

> **Devesh Sachdev** MD & CEO DIN: 02547111

ई-नीलामी विक्रय सूचना

रथानः कौशांबी विनांक: 07 मई 2024

दक्षिण पश्चिम दिल्ली-110075

गहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

निवेश

Place: Gurugram

Date: May 06, 2024

हस्तासर /

अजीत कुमार सि

खीआईएनः 01857072

पंजीकृत कार्यालयः ६०२, ६वीं मंजिल, जीरो वन आईटी पार्क, एसआर नंबर ७७/१, घोरपडी, मुंडवा रोड, पुणे- ४११०३६

सरफेसी अघिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री शा बांच ऑफ यूनिटः पहली मंजिल, सत्या बिजनेस पार्क, १, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ, पिन- 226001

عبرات المراجع المراجع

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री नोटिस, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित। इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/बंधककर्ता(ऑ)/गारंटर(ऑ) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले पुनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास गिरवी रखा गया है। पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 17 नवंबर 2023 से गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में बदल गया (पहले इसे भैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और मूल रूप से जेमनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित किया गया था) (इसके बाद अधिनियम के अनुसार इसे 'सुरक्षित लेनदार' के रूप में जाना जाता है) जिसका कब्जा सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13(2) के तहत नोटिस के अनुसार सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। सुरक्षित संपत्तियां ई—नीलामी के माध्यम से 07/06/2024 को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जा है' और 'जो कुछ है' के आधार पर बेची जाएंगी। इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई—नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया जीएचएफएल / सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी www.-grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

क्र. सं.	प्रस्ताव स. ग्राहक का नाम (ए)	भाग सूचना दिनाक और बकाया राशि {बी}	कब्जे की प्रकृति {सी}	संपत्ति का विवरण {डी}	आरक्षित मृल्य {ई}	ईएमडी (आरपी का 10%) {एफ}	ईएमडी जमा करने की तारीख {जी}	वृद्धिशील बोली {एच}	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय {आई}	नीलामी की तारीख और समय {जे}	बाधाएँ/न्यायालय मामले, यदि कोई ज्ञात हों तो {ज्ञ}
1.	ऋण संख्या एचएफ/0044/एच/21/100240 साजिद हमीद (उधारकर्ता) राखी परवीन (सह—उधारकर्ता)	सूचना दिनांकः 08/01/2024 कुल बकायाः रु.1302863.30/— (तेरह लाख दो हजार आठ सौ तिरसठ रुपये और तीस पैसे मात्र) 08/01/2024 को 16प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देय।	भौतिक	आराजी नंबर 19, मौजा—पनवार, परगना—अरैल, तहसील—करछना, प्रयागराज क्षेत्रफल 1181.वर्ग फीट के हिस्से पर स्थित प्लॉट का सारा टुकड़ा और पार्सल जयपुरिया स्कूल और वात्सल्य पिन कोड 211008 से घिराः— पूर्वः— आराजी का हिस्सा, पश्चिमः— अन्य भूमि, उत्तरः — अन्य भूमि, दक्षिणः— 12 फीट चौड़ी कच्ची रोड।	रु. 14,17,500 / — (चौदह लाख सत्रह हजार पांच सौ रूपये मात्र)	रु.1,41,750 / – (एक लाख इकतालीस हजार सात सौ पचास रूपये मात्र)	06/06/20 24 शाम 5 बजे से पहले	10,000 / -	31.05.2024 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	07.06.2024 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य
2.	ऋण संख्या एचएफ/0055/एच/20/100103 कुर्मी नवेशमाई जमुनासिंह (उधारकर्ता) कुरामी अनिता नवेशमाई (सह उधारकर्ता)	सूचना दिनांकः 07/02/2024 कुल बकायाः रु. 1196091.20/— (ग्यारह लाख छियानवे हजार इकानवे पैसे दो मात्र) 07/02/2024 को 16प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देय।	भौतिक	आराजी नंबर 885 क्षेत्रफल 3000.00 वर्ग फीट का वह सारा टुकड़ा और पार्सल या 278.81 वर्गमीटर. मौजा में — हंडियाडीह, परगना कटेहर, तहसील सदर, जिला—वाराणसी और जमीन के अनुसार भूखंड की सीमाएं:— पूर्व — दूसरों का खुला भूखंड, पश्चिम — रास्ता 12' चौड़ा उत्तर — मालती देवी का घर दक्षिण — रास्ता 12' चौड़ा	रु. 15,75,000 / – (पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार रूपये मात्र)	रु. 1,57,500 / – (एक लाख सत्तावन हजार पांच सौ रूपये मात्र)	06.06.2024 शाम 5 बजे से पहले	10,000 /—	31.05.2024 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	07.06.2024 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य
3.	ऋण संख्या एचएफ/0055/एच/21/100291 ज्योति कुमारी (उधारकर्ता) श्रवण कुमार (सह—उधारकर्ता)	सूचना दिनांकः 07/02/2024 कुल बकायारू रु.1104659.30/— (ग्यारह लाख चार हजार छह सौ उनसठ और तीस पैसे मात्र) 07/02/2024 को 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देय।	भौतिक	आराजी नंबर 376मि मौजा गंगापुर परगना कसवार सरकारी तहसील राजातालाब जिला वाराणसी क्षेत्रफल 1700.वर्ग फीट का वह सारा सामान और पार्सल ओम अंबिके आश्रम पिन कोड—221311 इसकी सीमा:— पूर्वः — खाली प्लॉट, पश्चिमः— सड़क 12 फीट, उत्तरः— खाली प्लॉट, दक्षिणः— खाली प्लॉट	रु. 11,45,375 / – (ग्यारह लाख पैंतालीस हजार तीन सौ पचहत्तर रूपये मात्र)	रु. 1,14,537.5/– (एक लाख चौदह हजार पांच सौ सैंतीस रुपये और पचास पैसे मात्र)	06.06.2024 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	31.05.2024 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	07.06.2024 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	श्रून्य
4.	ऋण संख्या एचएफ/0055/एच/21/100320 अविनाश कुमार विश्वकर्मा (उधारकती) ऋचा विश्वकर्मा (सह—उधारकती)	सूचना दिनांकः 07/02/2024 कुल बकायाः रु. 1325798.98/— (तेरह लाख पच्चीस हजार सात सौ अड्डानवे पैसे अड्डानवे मात्र) 07/02/2024 को 16प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देय।	भौतिक	आराजी नंबर 1365 मौजाडूमेला परगना कसवार राजा तहसील राजातालाब जिला वाराणसी क्षेत्रफल 2796.वर्ग फीट का वह सारा सामान और पार्सल राजेंद्र मसाला पिन कोड 221001 से घिराः – पूर्वः – सड़क 10 फीट, पश्चिमः – खाली प्लॉट, उत्तरः – खाली प्लॉट, दक्षिणः – खाली प्लॉट	रु. 17,12,550 / – (सत्रह लाख बारह हजार पांच सौ पचास रूपये मात्र)	रु. 1,71,255/— (एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ पचपन रूपये मात्र)	06.06.2024 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	31.05.2024 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	07.06.2024 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य
5.	ऋण संख्या एचएफ/0045/एच/21/100349 एवं एचएफ/0045/एच/21/100317 अभिनव मिश्रा (उधारकर्ता) नेहा मिश्रा (सह—उधारकर्ता)	सूचना दिनांकः 07/02/2024 कुल बकायाः रु. 1706421.89/— (सत्रह लाख छह हजार चार सौ इक्कीस रूपये और नवासी पैसे मात्र) 07/02/2024 को 13.25 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देय। रु. 1727294.17/— (सत्रह लाख सत्ताईस हजार दो सौ चौरानबें और पैसे सत्रह मात्र) 07/02/2024 को 13.25 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देय।	भौतिक	प्लॉट का वह सारा टुकड़ा और पार्सल आराजी नंबर 524मी ग्राम मोहसिनपुर कानपुर नगर यूपी क्षेत्रफल:209.02.वर्ग मीटर के हिस्से में स्थित हैं। पिन कोड़— 208019 से घिरा:— पूर्व:— 8 फीट गली और चौबे का घर, पश्चिम:— 15 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर:— अनवर अमद सहफाज का घर, दक्षिण:— विक्रेता के प्लॉट का हिस्सा।	रु. 25,59,375 / – (पच्चीस लाख उनसठ हजार तीन सौ पचहत्तर रुपये मात्र)	रु. 2,55,937.5 / – (रुपये दो लाख पचपन हजार नौ सौ सैंतीस और पचास पैसे मात्र)	06.06.2024 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	31.05.2024 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	07.06.2024 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं / खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें. और अपनी जांच करें और अतिरिक्त शुल्क, ऋणभार और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करें। संपत्ति से जुड़े सभी वैधानिक

बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली / पानी का बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। इच्छक बोलीदाताओं को पोर्टल पर खद को पंजीकत करना होगा और पहले से ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा. जो नीलामी सेवा प्रदाता) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पता— प्लॉट नंबर—68 तीसरी मंजिल गडगांव हरियाणा—122003. हेल्पलाइन नंबर— 7291981124,25.26 सपोर्ट ईमेल आईडी— Support@bankeauctions.com. संपर्क व्यक्ति — धरनी, ईमेल आईडी— dharani.p@c1india.com संपर्क नंबर— 9948182222 से ई—बोली के लिए अनिवार्य है, एवमं कि संभावित बोलीदाता लाग उठा सकते हैं ई—नीलागी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण उन्हीं से इच्छुक क्रेता / बोलीदाता को 'गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड', बैंक- आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड खाता संख्या-000651000460 और आईएफएससी कोड- आईसीआईसी000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड-कोलकाता-700001, के खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस / डीडी के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करनी होगी। किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से 06/06/2024 को या उससे पहले निकाला गया और अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पंजीकृत करें और उपयोगकर्ता प्राप्त करें। आईडी एवं पासवर्ड निःश्ल्क एवं सेवा प्रदाता से ई—नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर अपने पंजीकरण के बाद, इच्छूक क्रेता/बोलीदाता को निम्निलिखत दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी, ई—मेल करना होगा और पते पर स्वयं सत्यापित हार्ड कॉपी — पहली मंजिल, साई स्क्वायर, 16/116—ए३, (45), भार्गव एस्टेट, सिविल लाइन्स, कानपुर, उत्तर प्रदेश—208001 मोबाइल नंबर। +91 9567626050 ई—मेल आईडी rahul.r1@grihumhousing.com. पर भेजनी होगी। ई—नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएं।

इस नोटिस को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता(ओ) / गारंटर(ओं) को 30 दिनों का नोटिस माना जाना चाहिए। दिनांकः 07.05.2024 स्थानः उत्तर प्रदेश

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पूर्व में पूजावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

www.readwhere.com

नई दिल्ली

साथ परिणाम कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर रखे जाएंगे और उन स्टॉक

एक्सचेंजों (www.bseindia.com और www.nseindia.com) को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके अपनी ईमेल आईडी को स्थायी रूप से पंजीकृत करें:

लिमिटेड के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत / अपडेट करें।

पंजीकृत / अपडेट करें।

अलावा, मतदान के लिए विस्तृत निर्देशों सहित विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध पोस्टल बैलेट की सूचना में प्रदान किया गया है।

pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in या टेलीफोन नंबर पर +91 22 2499 4545 पर संपर्क करें।

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः मई 06, 2024